



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44]

नई दिल्ली, मंगलवार फरवरी 8, 1977/साघ 19, 1898

No. 44]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1977 MAGHA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1977

G.S.R. 65(E)—In pursuance of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1957 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 126(E), dated the 16th March, 1976, the Central Government hereby fixes, with immediate effect, the price specified in column (2) of the Schedule annexed hereto as the maximum price per tonne, at which the fertiliser specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule shall be sold to the tea, coffee or rubber plantations or to the cultivators.

THE SCHEDULE

| Name of Fertiliser | Maximum price per tonne (Net) (in rupees). |
|--------------------|---|
| 1 | 2. |
| 1. Urea (46% N) | 1650 |
| 2. Urea (45% N) | 1610 |

Explanation.—The maximum price specified above shall be exclusive of the Central Sales-tax, local Sales-tax or other local taxes wherever levied, whether at the retail sales point or at the intermediate stage.

NOTE.—When sales of any fertiliser are made in quantities not exceeding 5 kilogrammes at a time, the dealer may charge one paise per kilogram in addition to the proportionate maximum price specified above.

[No. 10-5/77-STU]

P. S. KOHLI, Jt. Secy.

कृषि और मिचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1977

अधिसूचना

सां. कां. निं. 65(अ) —उर्वरक (नियंत्रण) अधिनियम, 1957 के खण्ड 3 के अनुसरण में और भारत सरकार के कृषि और मिचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या सां. कां. निं. 126(ई) दिनांक 16 मार्च, 1976 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तुरन्त प्रभावी रूप से, इस में उपावख अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कीमत को प्रति टन अधिकतम फुटकर कीमत, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उर्वरक, चाय, काफी या रबड़ बागानों या खेतिहरी को विक्रय किया जा सकेगा, नियत करनी है।

अनुसूची

| उर्वरक का नाम | प्रति टन अधिकतम कीमत (निषण) (रुपयों में) |
|----------------------------------|---|
| (1) | (2) |
| 1. यूरिया (46 प्रतिशत नाइट्रोजन) | 1650 |
| 2. यूरिया (45 प्रतिशत नाइट्रोजन) | 1610 |

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय विक्रय कर, स्थानीय विक्रय कर या अन्य स्थानीय कर, भले ही फुटकर विक्रय स्थान या मध्यवर्ती स्थिति में जा कहीं भी उद्ग्रहणीय थे, सम्मिलित नहीं होगा।

टिप्पण.— पांच किलोग्राम से अधिक मात्रा में किसी एक समय के किसी उर्वरक के विक्रय किये जाने की स्थिति में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के अनुपात में एक पैसा प्रति किलोग्राम अधिक ले सकेगा।

[सं. 10-5/77-एस टी यू.]

पी० एम० कोहली, सचिव सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977